

## On Leadership

The most dangerous leadership myth is that leaders are born—that there is a genetic factor to leadership. That's nonsense; in fact, the opposite is true. Leaders are made rather than born. —Warren Bennis

यह एक खतरनाक मिथक यह है कि नेता पैदा होते हैं – कि नेतृत्व का गुण आनुवंशिक होता है. यह बकवास है; वास्तव में इसका उलटा सही है. नेता पैदा नहीं होते; नेता बनाए जाते हैं. — वारेन बेनिंस.

Leadership is lifting a person's vision to high sights, the raising of a person's performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations. — Peter Drucker

नेतृत्व वह प्रभाव है जो व्यक्तियों की जीवनदृष्टि को ऊंचे धरातल तक ले जाता है, उनकी उपलब्धियों को ऊंचे उठने की शक्ति देता है, और उनके व्यक्तित्व को उनकी साधारण सीमाओं का अतिक्रमण कर विस्तारित करता है. — पीटर ड्रुकर

A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. —John Maxwell

नेतृत्वकर्ता वह होता है जो जानता है किस रास्ते चलना है, जो उस रास्ते पर स्वयं चलाता है, और जो दूसरों को भी उस रास्ते चला पाता है — जॉन मैक्सवेल

A leader takes people where they want to go. A great leader takes people where they don't necessarily want to go, but ought to be. —Rosalynn Carter

एक नेता लोगों को वहाँ ले जाता है जहाँ वे जाना चाहते हैं. मगर एक महान नेता लोगों को वहाँ ले जाता है जहाँ उन्हें जाना चाहिए. — रोज़लिन कार्टर

Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the Problems.—Brian Tracy

एक कार्यकर्ता समस्याओं के बारे में सोचता और बातें करता है; एक नेता समाधान के बारे में. — ब्रायन ट्रेसी



## भारतीय सुराज मंच BHARATIYA SURAAJ MANCH

### नेतृत्व-विकास कार्यक्रम

आज खेल-कूद में, राजनीति में, शिक्षा में, प्रशासन में, समाज-सेवा में, धर्म में, फ़ौज में, व्यवसाय में — राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में गिरावट दिख पड़ती है. ध्यान से देखा जाए तो इसके पीछे एक सामान्य कारण दिखेगा, जो है अच्छे नेतृत्व का अभाव. देश में आज कुशासन और अव्यवस्था के पीछे अच्छे राजनीतिक नेतृत्व का अभाव एक आधारभूत सामान्य कारण है.

अभी कुछ ही दशक पहले भारत के कई क्षेत्रों में ऊंचे दर्जे के नेता देखे जा सकते थे. साराभाई और भाभा सरीखे वैज्ञानिक नेतृत्वकर्ताओं की ही बदौलत भारत ने अंतरिक्षविज्ञान और नाभिकीय विज्ञान में इतनी ऊंची प्रगति हासिल की. गाँधी, नेहरू, पटेल, राजगोपालाचारी और सुभाष जैसे महान नेताओं की ही बदौलत देश को आजादी हासिल हुई और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खड़ा हुआ. घनश्याम दास बिरला और जमशेदजी तथा जे.आर.डी. टाटा सरीखे नेताओं की वजह से उद्योग जगत ने विकास की कई मंजिलें तय कीं. मगर आज हर क्षेत्र में नेतृत्व का संकट दिख रहा है. इसके कई कारणों में से एक कारण है शिक्षा व्यवस्था में नेतृत्व-विकास पर वैचारिक, भावनात्मक और व्यावहारिक इनपुट का अभाव.

इसी कमी को पूरा करने के लिए भारतीय सुराज मंच ने बच्चों और युवाओं के लिए नेतृत्व-विकास कार्यक्रम विकसित किये हैं और उन्हें व्यापक तौर पर स्कूलों और कॉलेजों में लागू करने की कोशिश कर रहा है.

प्रारम्भिक नेतृत्व-कार्यक्रम में दिखाई जाने वाली फिल्मों में नेतृत्व के मर्म पर विशेष रूप से बनायी गई एक फिल्म

'महात्मास्मि – द लीडर इन मी' को यू-ट्यूब के इस पन्ने पर देखा जा सकता है — <http://youtu.be/v8kQ99Olha0>

इन नेतृत्व-विकास कार्यक्रमों में युवा सामाजिक कार्यकर्ता भी शरीक हो सकते हैं. इसलिए इस पूरे उद्यम में राज्य और देश की स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी जो अपने-अपने क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य करती रही हैं. इन नेतृत्व-विकास कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त स्थानीय प्रतिभागियों की शिनाख्त कर उन्हें कार्यक्रम के लिए जुटाने और कार्यक्रम आयोजित करने में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. इस उद्यम में सभी को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है.

नेतृत्व-विकास कार्यक्रमों का लाभ कोई भी युवा ले सकता है. ये युवा भविष्य में जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएँ, अपने-अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर देश में सुराज लाने में अपना योगदान कर पायेंगे. वास्तव में व्यक्तिगत सफलता और जीवन में ऊंचा उठने के लिए के लिए युवाओं को जितनी मदद नेतृत्व-क्षमता के विकास से मिल सकती है उतनी शायद और किसी भी एक गुण से नहीं.

#### ४ घंटों के प्रारम्भिक नेतृत्व-विकास कार्यक्रम की झलकियाँ —

- ❖ नेतृत्व के विचार या अवधारणा का खुलासा
- ❖ नेतृत्व के मर्म पर विशेष रूप से बनाई गई एक २६ मिनट की हिंदी फिल्म, जिसे यू-ट्यूब के निम्नलिखित पृष्ठ पर देखा जा सकता है - <http://youtu.be/v8kQ99Olha0>
- ❖ प्रतिभागियों की भाषण-क्षमता सामने लाने का अवसर
- ❖ प्रतिभागियों द्वारा अपने नेतृत्व के गुणों का स्वयं मूल्यांकन
- ❖ प्रतिभागियों को नेतृत्व-क्षमता विकसित करने पर मार्गदर्शन और प्रेरणा

[www.suraaaj.net](http://www.suraaaj.net)

Email: [suraaajmanch@gmail.com](mailto:suraaajmanch@gmail.com)

Phone: 09852977779 Fax: 0651-2292152